



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2010/अग्रहायण 8, 1932

No. 2421]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2010/AGRAHAYANA 8, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2010

का.आ. 2855(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1594(अ), तारीख 6 जुलाई, 2010 और का.आ. 1934(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 60.000 कि.मी. से 96.000 कि.मी. (हजारीबाग-रांची सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचनाओं का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 7 अगस्त, 2010 को "हिन्दुस्तान" और तारीख 13 अगस्त, 2010 को "दि टेलीग्राफ" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के 60.000 कि.मी. से 96.000 कि.मी. तक (हजारीबाग—रॉंची सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
							(वर्ग मीटर में)	(एकड़ में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	रामगढ़	मोंडु	(1) बोगाबार	236	निजी	धान ।	0.150	607.042	अज्ञात
				237	निजी	धान ।	0.183	741.805	श्रीमती मुरी देवी पति छेदी महतो
				237	निजी	धान ।	0.087	350.465	जानकी प्रजापती पिता स्व० प्रजापती
				238	निजी	धान ।	0.020	80.939	राम महतो, लक्ष्मण महतो पिता स्व० मुखल महतो
				238	निजी	धान ।	0.060	323.756	श्रीमती मुन्दरी देवी पति सुमलाल महता
				239	निजी	धान ।	0.030	121.408	राम महतो, लक्ष्मण महतो पिता स्व० मुखल महतो
				240	निजी	धान ।	0.020	80.939	राम महतो, लक्ष्मण महतो पिता स्व० मुखल महतो
				241	निजी	धान ।	0.010	40.469	राम महतो, लक्ष्मण महतो पिता स्व० मुखल महतो
				246	निजी	धान ।	0.010	40.469	अमृत महतो पति स्व० चमन महतो
				458	निजी	धान ।।	0.180	728.450	अज्ञात
				470	निजी	धान ।।	0.020	80.939	अज्ञात
				486	निजी	धान ।	0.360	1456.900	सुनील कुमार पाण्डा पिता स्व० सीताराम पांडा
				486	निजी	धान ।	0.250	1011.736	श्रीमती जानू देवी पति मुनेश्वर महतो
				488	निजी	धान ।	0.380	1537.839	सुनील कुमार पाण्डा पिता स्व० सीताराम पांडा
				488	निजी	धान ।	0.130	526.103	सोहराई महतो, मिख मोहन महतो पति स्व० धुजा महतो, महेश प्रजापति एवं अन्य स्व० लोखन प्रजापति
				488	निजी	धान ।	0.290	1173.614	अज्ञात
				489	निजी	धान ।।	0.020	80.939	अज्ञात
				490	निजी	धान ।।	0.020	80.939	महेश प्रजापति पति स्व० लोखन प्रजापति
				491	निजी	धान ।।	0.030	121.408	अशोक महतो पति श्री डोमन महतो
				492	निजी	धान ।।	0.160	647.511	रामजी महतो पति स्व० लगन महतो
				494	निजी	धान ।।	0.040	161.878	श्रीमती सुकरी देवी पति लोखन प्रजापति, सोमरी देवी पति गीली प्रजापति, रिखीया देवी पति रामचन्द्र प्रजापति
				494	निजी	धान ।।	0.140	566.572	अज्ञात
				495	निजी	धान ।।	0.030	121.408	अज्ञात
				495	निजी	धान ।।	0.030	121.408	बनधनी देवी, पिता स्व०
				496	निजी	धान ।।	0.080	323.756	अज्ञात
				513	निजी	धान ।	0.080	323.756	माला देवी पति जगन्नाथ चरणजी
				514	निजी	धान ।	0.033	134.763	गोवार/कक्कू महतो एवं अन्य पिता स्व० विष्णु महतो कृष्ण देवी एवं अन्य पिता खेमन गिरी
				514	निजी	धान ।	0.072	290.166	अज्ञात
				515	निजी	धान ।	0.420	1599.717	अज्ञात

				निजी	धान ।	0.160	647.511	दिलीप किशोर गिरी पिता श्री बदीनाथ गिरी
			516	निजी	धान ।	0.160	647.511	झालमती देवी पति बदीनाथ गिरी
			517	निजी	धान ।	0.160	647.511	तुलसी महतो, जगदेव महतो बासुदेव महतो, रामकेसर महतो रामवचन महतो पिता स्व फकीर महतो
			517	निजी	धान ।	0.160	647.511	लालो महतो, भूनेश्वर महतो पिता स्व दुखी महतो
			517	निजी	धान ।	0.080	323.756	भुनेश्वर महतो पिता स्व दुखी महतो
			518	निजी	धान ।	0.155	627.276	दिलेश्वर कुशवाहा द्वारीका प्रसाद पिता यदु महतो
			518	निजी	धान ।	0.130	526.103	यदु महतो पिता स्व० जयपाल महतो
			518	निजी	धान ।	0.155	627.276	श्रीमती मानतुरीया देवी पति जयपाल महतो, यदू महतो, मिथीलेश महतो, प्रकाश महतो पिता जयपाल महतो
			519	निजी	धान ।	0.250	1011.736	अरूण कुमार मिश्रा, अभीम मिश्र पिता श्याम पांडा, झालमती देवी पति बदीनाथ गिरी
			520	निजी	धान ।	0.163	660.866	यदु महतो पिता स्व० जयपाल महतो
			520	निजी	धान ।	0.323	1308.377	प्रकाश कुमार महतो, मिथीलेश महतो पिता स्व० जयपाल महतो
			532	निजी	धान ।	0.180	728.450	अमर कुमार पांडा पिता स्व० शम्भु पांडा एवं अन्य
			533	निजी	धान ।	0.120	485.633	पुनीया देवी पति सरयू महतो
			533	निजी	धान ।	0.040	161.878	अज्ञात
			534	निजी	धान ।	0.380	1537.839	अज्ञात
			536	निजी	धान ।	0.006	23.594	कृष्णा गिरी पति खेमन गिरी
			536	निजी	धान ।	0.020	80.939	श्रीमती मालो देवी पति जारनाथ करमाली
			536	निजी	धान ।	0.073	293.403	उपासी देवी पति सुखदेव महतो
			536	निजी	धान ।	0.058	234.723	गोवार/कक्कू महतो एवं अन्य पिता स्व विष्णु महतो कृष्ण गिरी एवं अन्य पिता खेमन गिरी
			536	निजी	धान ।	0.018	72.845	पुरन महतो पिता स्व० झुलार महतो
			537	निजी	धान ।	0.013	50.587	भिम महतो पिता झुलार महतो
			537	निजी	धान ।	0.088	354.108	अज्ञात
			538	निजी	धान ।	0.221	895.184	भिम महतो पिता झुलार महतो
			538	निजी	धान ।	0.618	2498.988	अज्ञात
			539	निजी	धान ।	0.120	485.633	पुरन महतो पिता स्व० झुलार महतो
			540	निजी	धान ।	0.240	971.267	उपासी देवी पति सुखदेव मालो देवी पति जगरनाथ करमाली, विष्णु प्रजापती पति मटुक प्रजापती, असतारा देवी पति कुशवर प्रजापती
			553	निजी	धान ।	0.080	323.756	अज्ञात
			554	निजी	धान ।	0.050	202.347	रामवचन महतो पति स्व फकीर महतो, गोवार/कक्कू महतो पति स्व विष्णु महतो

				555	निजी	धान ।	0.230	930.797	रामवचन महतो पति स्व. फकीर महतो, गोवार/कूकू महतो पति स्व० विष्णु महतो
				556	निजी	धान ।	0.020	80.939	श्रीमती सावीत्री देवी पति गोरीशंकर करमाली
				557	निजी	धान ।	0.030	121.408	सावीत्री देवी पति जितन महतो
				558	निजी	धान ।	0.060	242.817	अज्ञात
				558	निजी	धान ।	0.120	485.633	श्रीमती सावीत्री देवी पति गोरीशंकर करमाली
				558	निजी	धान ।	0.060	242.817	जासो देवी पति स्व० डोमन महतो
				559	निजी	धान ।	0.100	404.694	श्रीमती सावीत्री देवी पति गोरीशंकर करमाली
				559	निजी	धान ।	0.080	323.756	अज्ञात
				560	निजी	धान ।	0.450	1821.125	अज्ञात
				562	निजी	धान ।	0.010	40.469	श्रीमती सावीत्री देवी पति गोरीशंकर करमाली
				570	निजी	धान ।	0.060	242.817	अज्ञात
				575	निजी	धान ।	0.010	40.469	अज्ञात
				576	निजी	धान ।	0.310	1254.553	अज्ञात
				577	निजी	धान ।	0.880	3561.311	अज्ञात
				578	निजी	धान ।	0.190	768.919	अज्ञात
				598	निजी	धान ।	0.140	566.572	अज्ञात
				1190	निजी	धान ।।।	0.040	161.878	अज्ञात
				1193	निजी	धान ।।	0.070	283.286	अज्ञात
				1194	निजी	धान ।।	0.010	40.469	अज्ञात
				1192	निजी	धान ।।	0.020	80.939	अज्ञात
				1198	निजी	धान ।	0.010	40.469	अज्ञात
				1199	निजी	धान ।	0.070	283.286	अज्ञात
				1189	निजी	धान ।।	0.010	40.469	अज्ञात
				1200	निजी	धान ।।	0.080	323.756	अज्ञात
				1201	निजी	धान ।।	0.020	80.939	अज्ञात
				1202	निजी	धान ।।	0.030	121.408	अज्ञात
				1203	निजी	धान ।	0.010	40.469	अज्ञात
				1204	निजी	धान ।	0.020	80.939	अज्ञात
				1216	निजी	धान ।	0.030	121.408	सहदेव महतो पिता स्व० चैता
				1216	निजी	धान ।	0.030	121.408	अज्ञात
				1217	निजी	धान ।	0.230	930.797	अज्ञात
				1218	निजी	धान ।	0.060	242.817	अज्ञात
				1219	निजी	धान ।	0.270	1092.675	अज्ञात
				1220	निजी	धान ।	0.050	202.347	अज्ञात
				1220	निजी	धान ।	0.050	202.347	अज्ञात
				1221	निजी	धान ।	0.220	890.328	अज्ञात
				1222	निजी	धान ।	0.200	809.389	अज्ञात
				1223	निजी	धान ।	0.010	40.469	अज्ञात
				1224	निजी	धान ।	0.010	40.469	श्रीमती शकुन्तला देवी
				1225	निजी	धान ।	0.020	80.939	अज्ञात
				1226	निजी	धान ।	0.030	121.408	अज्ञात
				1230	निजी	धान ।	0.055	222.582	श्रीमती गुजरी पति ककुपत रविदास
				1230	निजी	धान ।	0.055	222.582	अज्ञात
				1231	निजी	धान ।	0.070	283.286	अज्ञात
				1231	निजी	धान ।	0.035	141.643	अज्ञात
				1231	निजी	धान ।	0.035	141.643	अज्ञात
				1232	निजी	धान ।	0.020	80.939	अज्ञात

				1233	निजी	धान ।	0.060	242.817	अज्ञात
				1235	निजी	धान ।	0.050	202.347	अज्ञात
				1235	निजी	धान ।	0.050	202.347	अज्ञात
				1236	निजी	धान ।	0.100	404.694	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1236	निजी	धान ।	0.200	809.389	अज्ञात
				1244	निजी	धान ।	0.130	526.103	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1244	निजी	धान ।	0.040	161.878	अज्ञात
				1245	निजी	धान ।	0.020	80.939	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1246	निजी	धान ।	0.110	445.164	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1247	निजी	धान ।	0.310	1254.553	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1249	निजी	धान ।	0.160	647.511	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1250	निजी	धान ।	0.180	728.450	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1251	निजी	धान ।	0.040	161.878	अज्ञात
				1252	निजी	धान ।	0.130	526.103	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1253	निजी	धान ।	0.060	242.817	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1254	निजी	धान ।	0.030	121.408	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1255	निजी	धान ।	0.040	161.878	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1256	निजी	धान ।	0.060	242.817	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1257	निजी	धान ।	0.040	161.878	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1258	निजी	धान ।	0.040	161.878	बासुदेव महतो
				1266	निजी	धान ।	0.040	161.878	अज्ञात
				1267	निजी	धान ।	0.100	404.694	श्रीमती संगीता देवी पति श्री मोहन महतो
				1626	निजी	धान ।	0.300	1214.083	अज्ञात
				1628	निजी	धान ।	0.318	1284.905	मोहन महतो पिता जीवाधरन महतो
				1628	निजी	धान ।	0.130	526.103	रामकुशुन राम, शंकर प्रसाद, मनोज प्रजापती पति स्व. पुसन प्रजापती
				1628	निजी	धान ।	0.173	698.098	अज्ञात
				1629	निजी	परती कदीम	0.170	687.981	अज्ञात
				1630	निजी	धान ।	0.160	647.511	रामकुशुन राम, शंकर प्रसाद, मनोज प्रजापती पति स्व. पुसन प्रजापती
				1632	निजी	धान ।	0.155	627.276	रामकुशुन राम, शंकर प्रसाद, मनोज प्रजापती पति स्व. पुसन प्रजापती
				1633	निजी	धान ।	0.030	121.408	रामकुशुन राम, शंकर प्रसाद, मनोज प्रजापती पति स्व. पुसन प्रजापती
				1634	निजी	धान ।	0.060	242.817	रामकुशुन राम, शंकर प्रसाद, मनोज प्रजापती पति स्व. पुसन प्रजापती
						कुल	15.680	63454.189	
		(2) मुरपा	598	निजी	टाड ।।	0.10		404.694	पारस नाथ महतो, देवनारायण महतो, नागेश्वर महतो छवीनाथ महतो पति स्व धुजा महतो

				599	निजी	टांड II	0.11	445.184	पारस नाथ महतो, देवनारायण महतो, नागेश्वर महतो छवीनाथ महतो पति स्व धुजा महतो
				600	निजी	धान II	0.12	485.633	पारस नाथ महतो, देवनारायण महतो, नागेश्वर महतो छवीनाथ महतो पति स्व धुजा महतो
				601	निजी	धान खेत II	0.08	323.753	पारस नाथ महतो, देवनारायण महतो, नागेश्वर महतो छवीनाथ महतो पति स्व धुजा महतो
				604	निजी	धान खेत II	0.01	40.469	पारस नाथ महतो, देवनारायण महतो, नागेश्वर महतो छवीनाथ महतो पति स्व धुजा महतो
				605	निजी	धान खेत II	0.01	40.469	मैनी देवी पति महावीर पति
				607	निजी	धान खेत II	0.54	2185.350	जयनाथ महतो, कैलाश महतो, हेमलता महतो, इलार चन्द्रा महतो पति स्व रिझु महतो
				608	निजी	धान खेत II	0.16	647.511	(1) नरेश कुमार, प्रकाश चन्द्रा पटेल, लालमोहन पटेल पति ऋझु राम महतो (2) हरीलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो, बाबुलाल महतो पति स्व सुखलाल महतो
				612	निजी	धान खेत II	0.22	890.328	(1) नरेश कुमार, प्रकाश चन्द्रा पटेल, लालमोहन पटेल पति ऋझु राम महतो (2) हरीलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो, बाबुलाल महतो पति स्व सुखलाल महतो
				613	निजी	धान खेत II	0.14	566.572	(1) गीता देवी पति सतीश कुमार (2) अजय कुमार, विनोद कुमार पति स्व राजेश्वर प्रसाद मोदी, धुजा महतो पति सोमारी महतो
				614	निजी	टांड II	1.3	5261.028	(1) जयक किशोर पति स्व अशोधर मोदी (2) प्रमोद कुमार राकेश कुमार पति स्व० सूर्यनारायण मोदी, मो आरती देवी पति अशोक कुमार (3) विनोद कुमार, अजय कुमार पति राजेश्वर प्रसाद मोदी (4) किरण कुमार, मनोज कुमार, संजय कुमार पति स्व ब्रजेश्वर प्रसाद मोदी
				624	निजी	परती कदीम	0.32	1295.022	(1) हरीलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो, बाबुलाल महतो पति स्व सुखलाल महतो (2) उमेश चन्द्र पटेल पति श्री बक्कू महतो (3) सावीत्री देवी पति स्व निरमाला महतो (4) अर्जुन महतो पति श्री बक्कू महतो
				625	निजी	धान खेत II	0.18	728.450	(1) हरीलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो, बाबुलाल महतो पति स्व सुखलाल महतो (2) उमेश चन्द्र पटेल पति श्री बक्कू महतो (3) सावीत्री देवी पति स्व निरमाला महतो (4) अर्जुन महतो पति श्री बक्कू महतो

				626	निजी	धान खेत ।।	0.13	526.103	(1) संगीता केशरी पति नरेश प्रसाद केशरी (2) जुगल साव पति स्व० रामेश्वर साव
				627	निजी	धान खेत ।।	0.03	121.408	जयनाथ महतो, कैलाश महतो, हेमलता महता, इलार चन्द्रा महतो पति स्व. रिझु महतो
				635	निजी	धान खेत ।।	0.05	202.347	अर्जन महतो पति बक्कू महतो
				636	निजी	धान खेत ।।	0.28	1133.144	(1) लोकनाथ ठाकुर, कौलेशवर ठाकुर, बालेश्वर ठाकुर पति झेदी ठाकुर (2) श्री मतीलाखी देवी पति रघुनन्दन ठाकुर (3) नरेश ठाकुर, शम्भु ठाकुर एवं ककुपेश्वर ठाकुर
				640	निजी	धान खेत ।।	0.07	283.286	नरेश कुमार, प्रकाश चन्द्रा पटेल, लालमोहन पटेल पति ऋझु राम महतो
				641	निजी	टांड ।।	0.13	526.103	कृष्णादेव नारायण अग्रवाल पति स्व बंदी नाराण मोदी (2) मो आरती देवी पति स्व अशोक कुमार मोदी, प्रमोद कुमार मोदी, राकेश कुमार पिता नारायण मोदी
				642	निजी	धान खेत ।।	0.37	1497.369	कृष्णादेव नारायण अग्रवाल पति स्व बंदी नाराण मोदी (2) मो आरती देवी पति स्व अशोक कुमार मोदी, प्रमोद कुमार मोदी, राकेश कुमार पिता नारायण मोदी
				643	निजी	धान खेत ।।	0.32	1295.022	कृष्णादेव नारायण अग्रवाल पति स्व बंदी नाराण मोदी (2) मो आरती देवी पति स्व अशोक कुमार मोदी, प्रमोद कुमार मोदी, राकेश कुमार पिता नारायण मोदी
				653	निजी	धान खेत ।।	0.09	364.225	विनोद कुमार, अजय कुमार पिता स्व. राजेश्वर प्रसाद मोदी
				654	निजी	धान खेत ।।	0.03	121.408	नरेश कुमार, प्रकाश चन्द्रा पटेल, लालमोहन पटेल पति ऋझु राम महतो
				655	निजी	धान खेत ।।	0.1	404.694	शम्भु लाल ठाकुर पिता रघुनन्दन ठाकुर
				656	निजी	धान खेत ।।	0.04	161.878	मो. आरती देवी पति स्व० अशोक मोदी, प्रमोद कुमार मोदी राकेश कुमार पिता सूर्यनारायण मोदी
				657	निजी	धान खेत ।।	0.03	121.408	बारहन महतो पति महतो
				658	निजी	धान खेत ।।	0.09	364.225	शम्भु लाल ठाकुर पति रघुनन्दन ठाकुर
				659	निजी	धान खेत ।।	0.2	809.389	अज्ञात
				679	निजी	धान खेत ।।	0.01	40.469	सुरेश ठाकुर पति स्व० रोहन लाल ठाकुर
				743	निजी	धान खेत ।।	0.27	1092.675	कृष्णादेव नारायण अग्रवाल पिता स्व० बंदीनाथ मोदी
				744	निजी	टांड ।।	0.03	121.408	मोहर महतो पिता सुकर महतो
				752	निजी	धान खेत ।।	0.01	40.469	डेगन महतो पिता स्व खेतु महतो

				786	निजी	टांड ।।।	0.02	80.939	(1) तुलसी ठाकुर पिता स्व लटो ठाकुर (2) भिखनी देवी पति रोहन लाल ठाकुर
				787	निजी	धान खेत ।।	0.04	161.878	(1) अघना अजेरीया, बालचन्द्र अजेरीया पिता बिगन अजेरीया (2) हरीहर अजेरीया पिता पानु अजेरीया (3) कारु अजेरीया पिता स्व दसाई अजेरीया (4) मो मुन्दरी देवी
				790	निजी	धान खेत ।।	0.01	40.469	(1) अघना अजेरीया, बालचन्द्र अजेरीया पिता बिगन अजेरीया (2) हरीहर अजेरीया पिता पानु अजेरीया (3) कारु अजेरीया पिता स्व दसाई अजेरीया (4) मो मुन्दरी देवी
				791	निजी	धान खेत ।।	0.21	849.858	कृष्णदेव नरायण अग्रवाल पिता स्व बदीनारायण मोदी
				792	निजी	धान खेत ।।	0.08	323.756	कृष्णदेव नरायण अग्रवाल पिता स्व बदीनारायण मोदी
				793	निजी	परती कदीम	0.35	1416.431	अमृत सिंह पिता स्व सुन्दर सरदार सिंह एवं अन्य (पता जयसवाल कॉलोनी, होटल पार्क रामगढ़ के पीछे, मेनरोड)
				794	निजी	धान खेत ।।	0.25	1011.736	(1) अघना अजेरीया, बालचन्द्र अजेरीया पिता बिगन अजेरीया (2) हरीहर अजेरीया पिता पानु अजेरीया (3) कारु अजेरीया पिता स्व दसाई अजेरीया (4) मो मुन्दरी देवी
				795	निजी	टांड ।।	0.23	930.797	(1) अघना अजेरीया, बालचन्द्र अजेरीया पिता बिगन अजेरीया (2) हरीहर अजेरीया पिता पानु अजेरीया (3) कारु अजेरीया पिता स्व दसाई अजेरीया (4) मो मुन्दरी देवी
				796	निजी	टांड ।।	0.54	2185.350	(1) गणेशी देवी पति स्व नारायण ठाकुर (2) परमेश्वर ठाकुर पिता स्व बुक्कू ठाकुर (3) रघुनन्दन राय पिता स्व मुनेश्वर हजाम (4) लाखो देवी पति रघुनन्दन राम
				797	निजी	टांड ।।	0.28	1133.144	(1) हरीहर अजेरीया पिता पानु अजेरीया (2) फूल कुारी देवी पति राम अजेरीया (3) अघना अजेरीया, बाल चन्द्रा अजेरीया (4) करण अजेरीया पिता दसाई अजेरीया (5) मो मुन्दरी देवी पति माधव अजेरीया, हरीहर अजेरीया।
				802	निजी	टांड ।।	0.13	526.103	(1) भिखनी देवी पति रोहनलाल (2) तुलसी ठाकुर पिता स्व लारो ठाकुर (3) तुलसी ठाकुर पिता स्व लारो ठाकुर (4) मजु देवी पति नेटलाल ठाकुर
				803	निजी	टांड ।।	0.02	80.939	मजु देवी पति नेटलाल ठाकुर
				820	निजी	टांड ।	0.11	445.164	(1) सुखदेव प्रसाद सोनी पिता स्व विष्णु साव (2) धरमनाथ महतो, दशरथ महतो, दालचन्द्रा महतो, सेवलाल महतो पिता बाबुलाल महतो
				821	निजी	टांड ।	0.33	1335.492	(1) वासू देवी पति तपेश्वर महतो (2) झानू देवी पति सहदेव महतो

				825	निजी	टांड ।	0.23	930.797	(1) पाचु महतो पिता वैदेशी महतो (2) परमेश्वर महतो, रामदेश महतो, राजदेव महतो पिता महीला महतो (3) रामनी देवी पति स्व. भित्तुकधारी महतो
				826	निजी	टांड ।	0.14	566.572	(1) शौभा देवी पति जतरन महतो (2) परमेश्वर महतो, रामदेव महतो, राजदेव महतो पिता महीला महतो
				827	निजी	परती कदीम	0.08	323.756	(1) शौभा देवी पति जतरन महतो (2) परमेश्वर महतो, रामदेव महतो, राजदेव महतो पिता महीला महतो
				828	निजी	टांड ।	0.17	687.981	नाथु महतो पिता शिश टहल महतो, धर्मनाथ महतो, दशरथ महतो, दालचन्द महतो, सेवालाल महतो पिता बाबुलाल महतो
				829	निजी	टांड ।	0.18	728.450	(1) अरुण प्रसाद गुप्ता पिता स्व0 बृजु साव (2) शंकर प्रसाद गुप्ता, बबलू प्रसाद गुप्ता पिता बृजु साव
				830	निजी	खतीयान	0.03	121.408	झेदी ठाकुर पिता स्व गरीब ठाकुर
				831	निजी	मकान सहन	0.07	283.286	(1) झेदी ठाकुर पिता स्व गरीब ठाकुर (2) मंजु देवी पति नेतलाल ठाकुर (3) राजेश ठाकुर पिता गुडन ठाकुर
				833	निजी	परती कदीम	0.01	40.469	सुरेश ठाकुर पति स्व0 रोहन लाल ठाकुर
				834	निजी	टांड ।	1.10	4451.639	(1) सुरेश ठाकुर पिता स्व रोहन लाल ठाकुर (2) मदन गोपाल पिता बासदेव राम मोदी (3) रतन प्रसाद पिता स्व साव (4) रजनी देवी पिता परमेश्वर ठाकुर, गणेशी देवी पति नारायण ठाकुर (5) नरेश ठाकुर, पिता तुलसी ठाकुर (6) लोकनाथ ठाकुर, कौलेश्वर ठाकुर, कालेश्वर ठाकुर पिता झेदी ठाकुर (7) रेशमी देवी शिबु ठाकुर (8) लाखो देवी पति रघुनन्दन ठाकुर (9) मंजु देवी पति नेतलाल ठाकुर (10) राजेश ठाकुर, राजकुमार ठाकुर पति ठाकुर (11) राजु देवी पति बेचन झाकुर (12) सुरेश ठाकुर पिता स्व रोहन लाल ठाकुर (13) मिखनी देवी पति स्व रोहनलाल ठाकुर (14) चन्दरा ठाकुर, बासदेव ठाकुर पिता स्व चिन्तामन ठाकुर
				844	निजी	टांड ।।	1.01	4087.414	
				845	निजी	टांड ।।	0.91	3682.720	
				846	निजी	टांड ।।	1.02	4127.883	(1) सुखदेव प्रसाद सोनी पिता स्व विष्णु साव (2) धर्मनाथ महतो, दशरथ महतो, दालचन्द्रा महतो, सेवालाल महतो पिता बाबुलाल महतो (3) वासु देवी पति तपेश्वर महतो (4) जानू देवी पति सहदेव महतो

			847	निजी	टांड II	0.19	768.919	सुखदेव प्रसाद सोनी पिता स्व विधुन साव
					कुल	13.31	53864.832	
		(3) हताभारा पोचा	152	निजी	धान खेत I	0.28	1133.144	भारत महतो, बालदेव महतो पिता लुबान महतोख विताल भोला, रामचन्द्रा, गुड्डू महतो पिता डेगन महतो, घुटार महतो, बाकू महतो, पति फुचन महतो, खुदी महतो, सोहन, जताल, माना महतो, किसुन, संतोष महतो पिता महतो इत्यादि
			153	निजी	धान खेत I	0.20	809.389	दुलाल महतो, भेला महतो पिता जितन महतो, गजाधर महतो, महतो पिता रामजु महतो, सहजु महतो पिता चमन महतो
			156	निजी	धान खेत I	0.10	404.694	दुलाल महतो, भेला महतो पिता जितन महतो, गजाधर महतो, महतो पिता रामजु महतो, सहजु महतो पिता चमन महतो
			157	निजी	धान III	0.18	728.450	भारत महतो, बालदेव महतो पिता लुबान महतोख विताल भोला, रामचन्द्रा, गुड्डू महतो पिता डेगन महतो, घुटार महतो, बाकू महतो, पति फुचन महतो, खुदी महतो, सोहन, जताल, माना महतो, किसुन, संतोष महतो पिता महतो इत्यादि
			158	निजी	धान I	0.04	161.878	भारत महतो, बालदेव महतो पिता लुबान महतोख विताल भोला, रामचन्द्रा, गुड्डू महतो पिता डेगन महतो, घुटार महतो, बाकू महतो, पति फुचन महतो, खुदी महतो, सोहन, जताल, माना महतो, किसुन, संतोष महतो पिता महतो इत्यादि
			181	निजी	धान II	1.22	4937.272	भारत महतो, बालदेव महतो पिता लुबान महतोख विताल भोला, रामचन्द्रा, गुड्डू महतो पिता डेगन महतो, घुटार महतो, बाकू महतो, पति फुचन महतो, खुदी महतो, सोहन, जताल, माना महतो, किसुन, संतोष महतो पिता महतो इत्यादि
			182	निजी	टांड II	0.07	283.286	धखुल महतो, चन्दू महतो पिता स्व सोना महतो, खेता महतो, जगदीश महतो, तेजनारायण महतो, भोला महतो पिता नकुल महतो
			183	निजी	टांड II	0.50	2023.472	मोहन यादव, सुरेश यादव, नरेश यादव पिता काशी यादव
			183	निजी	टांड II	0.28	1133.144	मोती यादव पति काशी यादव
			189	निजी	टांड II	0.70	2832.861	मताल महतो, मोहन महतो, नरेश महतो, सुरेश महतो पिता काशी महतो

				200	निजी	धान III	0.01	40.469	मानुआ गोप पिता धारन महतो डोमन गोप पिता बुकन महतो
				201	निजी	धान I	0.20	809.389	मानुआ गोप पिता धारन महतो डोमन गोप पिता बुकन महतो
				202	निजी	धान II	0.17	687.981	मानुआ गोप पिता धारन महतो डोमन गोप पिता बुकन महतो
				203	निजी	धान II	0.19	768.919	खुदी महतो पिता रूपु महतो जगरनाथ महतो, हेमलाल महतो, देवनारायण महतो पसेरान खुदी महतो, जोकु महतो, शिवा महतो पशेरन गांगो महतो
				204	निजी	धान I	0.47	1902.064	खुदी महतो पिता रूपु महतो जगरनाथ महतो, हेमलाल महतो, देवनारायण महतो पसेरान खुदी महतो, जोकु महतो, शिवा महतो पशेरन गांगो महतो
				205	निजी	धान II	0.06	242.817	खुदी महतो पिता रूपु महतो जगरनाथ महतो, हेमलाल महतो, देवनारायण महतो पसेरान खुदी महतो, जोकु महतो, शिवा महतो पशेरन गांगो महतो
				205	निजी	धान II	0.0075	30.352	जगरनाथ महतो, झुमलाल महतो, देवनारायण महतो पिता खुदी महतो
				205	निजी	धान II	0.0125	50.587	अज्ञात
				206	निजी	टांड III	0.05	202.347	श्री कमल यादव पिता चिनु यादव
				257	निजी	टांड III	0.27	1092.675	मो. पानवा देवी पति स्व काशी यादव, देवा यादव पिता स्व महतो
				258	निजी	टांड III	0.14	566.572	बासुदेव यादव, सीतन यादव पति श्यामलाल यादव, भूनेश्वर यादव पिता येतल यादव, मास्को कुमारी देवी पति कौलेश्वर यादव
				259	निजी	टांड III	0.11	445.164	हुलास महतो पिता सोकु महतो
				260	निजी	टांड III	0.12	485.633	भदुआ महतो पिता महतो
				261	निजी	टांड III	0.21	849.858	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				262	निजी	टांड III	0.33	1335.492	श्रीमती मुनीया देवी पति मथुरा गोप
				263	निजी	टांड III	0.28	1133.144	चीनू महतो पिता महतो
				264	निजी	टांड III	0.11	445.164	चीनू महतो पिता महतो
				265	निजी	टांड III	0.08	323.756	चीनू महतो पिता महतो
				266	निजी	टांड III	0.14	566.572	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				267	निजी	टांड III	0.23	930.797	मो. पानू देवी पति स्व काशी यादव, बाबुलाल, देवा, चिनु यादव, राघुनन्दन यादव, मथुरा यादव पिता महतो हुलास महतो पिता रूपु महतो एवं अन्य
				268	निजी	टांड III	0.17	687.981	श्रीमती मुनीया देवी पति मथुरा गोप
				679	निजी	धान II	0.01	40.469	बिलू पिता किशुन महतो, दुखन पिता रघुनाथ महतो
				680	निजी	परती कदीम	0.02	80.939	कमल यादव, गोपाल, माती पिता तुरान यादव एवं अन्य
				681	निजी	धान III	0.01	40.469	कमल यादव, गोपाल, माती पिता तुरान यादव एवं अन्य

				686	निजी	धान ।।।	0.22	890.328	कमल यादव, गोपाल, माती पिता तुरान यादव एवं अन्य
				682	निजी	धान ।।।	0.01	40.469	खुदी महतो पिता रूपु महतो
				683	निजी	धान ।	0.07	283.286	खुदी महतो पिता रूपु महतो
				684	निजी	धान ।	0.07	283.286	अज्ञात
				685	निजी	धान ।	0.08	323.756	विरान महतो पिता सजित महतो
				687	निजी	धान ।।	0.04	161.878	खुदी महतो पिता रूपी महतो
				715	निजी	टांड ।।	0.06	242.817	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				740	निजी	टांड ।।	0.05	202.347	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				741	निजी	टांड ।।	0.05	202.347	अज्ञात
				742	निजी	टांड ।।	0.16	647.511	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				743	निजी	टांड ।।	0.14	566.572	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				747	निजी	टांड ।।	0.2160	874.140	मोती यादव पति काशी यादव
				747	निजी	टांड ।।	0.0920	372.319	टेकल यादव पिता काशी महतो
				747	निजी	टांड ।।	0.1120	453.258	मोहन यादव, सुरेश यादव, नरेश यादव पिता काशी यादव
				748	निजी	टांड ।।	0.1420	574.666	मतलाल महतो पिता काशी महतो
				748	निजी	टांड ।।	0.1420	574.666	मोहन यादव, सुरेश यादव, नरेश यादव पिता काशी यादव
				748	निजी	टांड ।।	0.0920	372.319	टेकल यादव पिता काशी महतो
				748	निजी	टांड ।।	0.1440	582.760	मोती यादव पति काशी यादव
				749	निजी	टांड ।।।	0.08	323.756	चिन्नु यादव पिता स्व यादव
				750	निजी	टांड ।।।	0.0875	354.108	रूपेश यादव पिता बासुदेव यादव
				750	निजी	टांड ।।।	0.2325	940.915	मो कुमारी देवी पति स्व कौलेश्वर यादव, बासदेव यादव, सीताराम यादव पिता स्व श्यामलाल यादव
				751	निजी	टांड ।।।	0.55	2225.820	हरदयाल महतो पिता फोयाल राम महतो
				814	निजी	टांड ।।।	0.14	566.572	मो. सुकरी देवी पति स्व विपत गोप
				830	निजी	धान ।।	0.04	161.878	चेतलाल गोप, कौलेश्वर गोप पिता खेदन महतो
				831	निजी	धान ।।	0.20	809.389	यादव महतो, महतो राम प्रसाद महतो पिता बाबुलाल महतो, रामेश्वर महतो, भूनेश्वर महतो, महावीर महतो, लालदेव महतो, सुखदेव प्रसाद पिता कैलू महतो
				835	निजी	धान ।।	0.02	80.939	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				836	निजी	धान ।।	0.2850	1153.379	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				836	निजी	धान ।।	0.0950	384.460	भारत महतो, बालदेव महतो पिता लुबान महतो, विताल भोला, रामचन्द्रा, गुड्डू महतो पिता डेगन महतो इत्यादि
				838	निजी	धान ।।	0.04	161.878	अज्ञात
				839	निजी	धान ।।	0.02	80.939	विरान महतो पिता सजित महतो
				840	निजी	धान ।।	0.03	121.408	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
				841	निजी	धान ।।	0.01	40.469	विरान महतो पिता सजित महतो

			842	निजी	धान ।।	0.31	1254.553	रघुनन्दन यादव पिता यादव, मथुरा यादव पिता यादव
			843	निजी	धान ।	0.20	809.389	खुदी महतो वल्द रूपु महतो
			844	निजी	धान ।	0.04	161.878	खुदी महतो वल्द रूपु महतो
			844	निजी	धान ।	0.19	768.919	अज्ञात
			845	निजी	धान ।	0.01	40.469	खुदी महतो वल्द रूपु महतो
			929	निजी	धान ।।	0.12	485.633	द इण्डियन एडुकेशन फाउन्डेशन द्वारा सचिव श्री प्रमोद कुमार श्री कृष्णकान्त शर्मा, पता - न्यू नगर, दिपाटोली, रौंछी
					कुल	11.56	46782.679	
		(5) पैकी	38	निजी	धान ।।	0.06	242.82	मो दुमनी देवी पति स्व रिझु मुण्डा, अर्जुन मुण्डा पति होना मुण्डा, सुरेश मुण्डा पति झोटा मुण्डा
			39	निजी	धान ।।	0.11	445.17	मो दुमनी देवी पति स्व रिझु मुण्डा, अर्जुन मुण्डा पति होना मुण्डा, सुरेश मुण्डा पति झोटा मुण्डा
			40	निजी	धान ।।	0.03	121.41	मो दुमनी देवी पति स्व रिझु मुण्डा, अर्जुन मुण्डा पति होना मुण्डा, सुरेश मुण्डा पति झोटा मुण्डा
			41	निजी	धान ।।	0.04	161.88	मो दुमनी देवी पति स्व रिझु मुण्डा, अर्जुन मुण्डा पति होना मुण्डा, सुरेश मुण्डा पति झोटा मुण्डा
			44	निजी	टांड ।।	0.01	40.47	मो दुमनी देवी पति स्व रिझु मुण्डा, अर्जुन मुण्डा पति होना मुण्डा, सुरेश मुण्डा पति झोटा मुण्डा
			238	खतीयान फटा है	धान ।।	0.01	40.47	ाकर मुण्डा, मनोज मुण्डा पति भेदु मुण्डा, सुरेश, नरेश, डोमन मुण्डा पति धुजा मुण्डा, मगर मुण्डा पति रूपलाल मुण्डा, विरू मुण्डा पति चिता मुण्डा, संतोष मुण्डा पिता प्रभु मुण्डा
			249	निजी	धान ।	0.07	283.29	बालकू मुण्डा पिता कार्तिक मुण्डा मो कैली देवी पति सोमरा मुण्डा, चमन, मोहन, टेकलाल, पिता लालमुनी मुण्डा, मो पानचमी देवी पति रामेशवर मुण्डा, जोगेश्वर मुण्डा पति मैनीका मुण्डा
			250	निजी	टांड ।।	0.01	40.47	बालकू मुण्डा पिता कार्तिक मुण्डा मो कैली देवी पति सोमरा मुण्डा, चमन, मोहन, टेकलाल, पिता लालमुनी मुण्डा, मो पानचमी देवी पति रामेशवर मुण्डा, जोगेश्वर मुण्डा पति मैनीका मुण्डा
			276	खतीयान फटा है	टांड ।।	0.04	161.88	अज्ञात
					कुल	0.38	1537.86	
		रामगढ़ (1) मूरमकलां	693	निजी	धान ।	0.02	80.94	देवधारी महतो एवं अन्य पिता कमल महता, कनचो देवी पति मोहन महतो, झुबरी देवी पति कमल महतो, मिनु महता पिता नेमा महतो, जीवलाल महतो एवं अन्य पिता सुकर महतो

				694	निजी	टांड II	0.01	40.47	देवधारी महतो एवं अन्य पिता कमल महता, कनचो देवी पति मोहन महतो, झुबरी देवी पति कमल महतो, निनु महतो पिता नेमा महतो, जीवलाल महतो एवं अन्य पिता सुकर महतो
				1053	निजी	टांड II	0.35	1416.45	देवधारी महतो एवं अन्य पिता कमल महता, कनचो देवी पति मोहन महतो, झुबरी देवी पति कमल महतो, निनु महतो पिता नेमा महतो, जीवलाल महतो एवं अन्य पिता सुकर महतो
				1181	निजी	धान II	0.42	1699.74	देवधारी महतो एवं अन्य पिता कमल महता, कनचो देवी पति मोहन महतो, झुबरी देवी पति कमल महतो, निनु महतो पिता नेमा महतो, जीवलाल महतो एवं अन्य पिता सुकर महतो
				1182	निजी	टांड III	0.34	1375.98	देवधारी महतो एवं अन्य पिता कमल महता, कनचो देवी पति मोहन महतो, झुबरी देवी पति कमल महतो, निनु महतो पिता नेमा महतो, जीवलाल महतो एवं अन्य पिता सुकर महतो
				699	निजी	टांड III	0.20	809.4	फूलसारी देवी पति सूखराम महतो
				700	निजी	टांड II	0.98	3966.06	श्रीमती अंजली देवी पति रामनारायण चौधरी, हुकुम नाथ महतो जलेश्वर महतो, हेमंत कुमार भिमेश्वर महतो, गुरुचरण महतो
				702	निजी	टांड II	0.64	2590.08	सहदेव महतो, सरलू महतो, सहजु महतो, मधु महतो, नरेश महतो
				703	निजी	टांड III	0.06	323.76	महरू महतो, तुलु महतो, निर्मल महतो, सपन महतो पिता लाखू महतो
				710	निजी	टांड III	0.19	768.93	महरू महतो, तुलु महतो, निर्मल महतो, सपन महतो पिता लाखू महतो
				713	निजी	धान तल्लज I	0.80	3237.6	महरू महतो, तुलु महतो, निर्मल महतो, सपन महतो पिता लाखू महतो
				714	निजी	धान तल्लज II	0.10	404.7	महरू महतो, तुलु महतो, निर्मल महतो, सपन महतो पिता लाखू महतो
				704	निजी	टांड III	0.45	1821.15	मो, बुडू पति स्व निर्मल महतो मेघनाथ महतो पिता लालदेव महतो देवलाल महतो पिता घुरं महतो लाखू महतो, बालू महतो पिता लोवीन महतो
				711	निजी	टांड III	0.10	404.7	मो, बुडू पति स्व निर्मल महतो मेघनाथ महतो पिता लालदेव महतो देवलाल महतो पिता घुरं महतो लाखू महतो, बालू महतो पिता लोवीन महतो

									बोकू महतो, सरजू महतो, कैला महतो, रेवालाल महतो, दूमन महतो, नारायण महतो, राफू महतो, बैजनाथ महतो, मिना महतो, घुनी लाल महता, किशुन महतो, घरकू महतो, धनाराम महतो
			709	निजी	टाइ	0.40	1618.8		
			716	निजी	टाइ	0.29	1173.63		घोहान महतो पिता घुनीलाल महतो
			1054	निजी	टाइ	0.42	1699.74		पवित्र महतो, इन्द्रपाल महतो, मागल महतो, रावण महतो, लोचन महतो, विजल महतो, निर्मल महतो, भैरवा महतो, टिकाराम महतो, लख्यू महतो, दिधी महतो, नागो महतो, वाहाली महतो, दिलीप महतो, देवकी महतो एवं अन्य
			1179	निजी	धान I	0.24	971.28		पवित्र महतो, इन्द्रपाल महतो, मागल महतो, रावण महतो, लोचन महतो, विजल महतो, निर्मल महतो, भैरवा महतो, टिकाराम महतो, लख्यू महतो, दिधी महतो, नागो महतो, वाहाली महतो, दिलीप महतो, देवकी महतो एवं अन्य
			1180	निजी	टाइ II	0.43	1740.21		पवित्र महतो, इन्द्रपाल महतो, मागल महतो, रावण महतो, लोचन महतो, विजल महतो, निर्मल महतो, भैरवा महतो, टिकाराम महतो, लख्यू महतो, दिधी महतो, नागो महतो, वाहाली महतो, दिलीप महतो, देवकी महतो एवं अन्य
		(2) कांकेबार	523	निजी	टाइ II	0.33	1335.51		श्री विष्णु पोद्दार पिता रामगोपाल पोद्दार, सावीत्री पोद्दार पिता श्री विष्णु पोद्दार, सत्यम पोद्दार पिता विलासल पोद्दार, श्री अभिषेक रूपाटा पिता श्री रानधर रूपाटा
			525	निजी	टाइ II	0.35	1416.45		मीन हेली गृह निर्माण सहकारी संस्थान ली, श्रीमती सावीत्री देवी प्रति श्री विष्णु पोद्दार
			526	निजी	टाइ II	0.44	1780.68		मीन वेली गृह निर्माण सहकारी संस्थान ली.
			528	निजी	टाइ II	0.39	1578.33		राकोश कुमार, राजेश कुमार, पिता स्व महेन्द्र प्रसाद, रूपलाल महतो खुशीलाल महतो पिता स्व किशुन महतो मो पति स्व राजेश्वर महतो
			529	निजी	टाइ II	0.17	687.99		रूपलाल महतो, कोशीला महतो पिता स्व किशुन महतो, मो फुदनी पति स्व राजेश्वर महतो
			530	निजी	टाइ II	0.01	40.47		रूपलाल महतो, कोशीला महतो पिता स्व किशुन महतो, मो फुदनी पति स्व राजेश्वर महतो
			531	निजी	टाइ II	0.14	566.58		रूपलाल महतो, कोशीला महतो पिता स्व किशुन महतो, मो फुदनी पति स्व राजेश्वर महतो
			532	निजी	टाइ II	0.01	40.47		रूपलाल महतो, कोशीला महतो पिता स्व किशुन महतो, मो फुदनी पति स्व राजेश्वर महतो

				537	निजी	टांड ।।	0.25	1011.75	रूपलाल महतो, कौशीला महतो पिता स्व किशुन महतो, मो फुदनी पति स्व राजेश्वर महतो
				533	निजी	टांड ।	0.22	890.34	श्रीमती विष्णा देवी पति श्री योगेन्द्र मिस्त्री महेश मारवाह
				534	निजी	डांड	0.05	202.35	मस्जिद, जमालुद्दीन अंसारी पिता स्व शेख अब्दुल
				535	निजी	टांड ।	0.20	809.4	मस्जिद, जमालुद्दीन अंसारी पिता स्व शेख अब्दुल
				536	निजी	टांड ।	0.15	607.05	मध्या विद्यालय कॉकंबार हेमलाल महतो, सुरेन्द्र महतो पिता स्व दरबारी महतो, मेघनाथ महतो पिता स्व पतलू महता
				547	निजी	टांड । घरवारी	0.13	526.11	चिन्तामनी महतो, सीतराम महतो झलक देव महतो पिता बिहारी महतो।
				595	निजी	खतीयान फटा	0.16	647.52	अज्ञात
				596	निजी	खतीयान फटा	0.04	161.88	अज्ञात
				597	निजी	खतीयान फटा	0.44	1780.68	अज्ञात
				598	निजी	खतीयान फटा	0.42	1699.74	अज्ञात
				599	निजी	खतीयान फटा	0.4	1618.8	अज्ञात
				601	निजी	खतीयान फटा	0.16	647.52	अज्ञात
				603	निजी	परती कदीम	0.01	40.47	अज्ञात
				606	निजी	धान ।।।	0.48	1942.56	मेरी पी. वी. असीसी भवन
						कुल	4.95	20032.65	

[फा. सं. भाराप्र/11013/01/एलए (एएम)/2010/झारखण्ड/6-गाँव]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2010

S.O. 2855(E).— Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1594 (E), dated the 6th July, 2010, and S.O. 1934 (E), dated the 9th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.33 on the stretch of land from Km.60.000 to Km.96.000 (Hazaribagh-Ranchi Section) in District Ramgarh in the State of Jharkhand:

And whereas the substance of the notifications has been published in the "Hindustan", dated the 7th August, 2010, and in "The Telegraph", dated the 13th August, 2010, under sub section (3) of section 3A of the said Act:

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 60.000 to Km 96.000 (Hazaribag - Ranchi Section) of NH-33 in the State of Jharkhand

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area		Name of person interested
							(in acres)	(in square meters)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Ramgarh	1. Mandu	(1) Bongabar	236	Private	Dhan I	0.150	607.042	Unknown
				237	Private	Dhan I	0.183	741.805	Smt. Mukri Devi W/o Chhedi Mahto
				237	Private	Dhan I	0.087	350.465	Jaanki Prajapati S/o Late Baalo Prajapati
				238	Private	Dhan I	0.020	80.939	Ram Mahto, Lakshman Mahto S/o Late Bhukhal Mahto
				238	Private	Dhan I	0.080	323.756	Smt. Mundri Devi W/o Subhlal Mahto
				239	Private	Dhan I	0.030	121.408	Ram Mahto, Lakshman Mahto S/o Late Bhukhal Mahto
				240	Private	Dhan I	0.020	80.939	Ram Mahto, Lakshman Mahto S/o Late Bhukhal Mahto
				241	Private	Dhan I	0.010	40.469	Ram Mahto, Lakshman Mahto S/o Late Bhukhal Mahto
				246	Private	Dhan I	0.010	40.469	Amrit Mahto S/o Late Chaman Mahto
				458	Private	Dhan II	0.180	728.450	Unknown
				470	Private	Dhan II	0.020	80.939	Unknown
				486	Private	Dhan I	0.360	1456.900	Sunil Kr. Panda S/o Late Sita Ram Panda
				486	Private	Dhan I	0.250	1011.736	Smt. Jaanu Devi W/o Bhuneswar Mahto
				488	Private	Dhan I	0.380	1537.839	Sunil Kr. Panda & Others S/o Late Sita Ram Panda
				488	Private	Dhan I	0.130	526.103	Sohrai Mahto, Bhik Mang Mahto S/o Late Dhuja Mahto, Mahesh Prajapati & others S/o Late Lokan Prajapati
				488	Private	Dhan I	0.290	1173.614	Unknown
				489	Private	Dhan II	0.020	80.939	Unknown
				490	Private	Dhan II	0.020	80.939	Mahesh Prajapati S/o Late Lokan Prajapati
				491	Private	Dhan II	0.030	121.408	Ashok Mahto S/o Sri Doman Mahto
				492	Private	Dhan II	0.160	647.511	Ram Ji Mahto S/o Late Jagan Mahto
				494	Private	Dhan II	0.040	161.878	Smt. Sukri Devi W/o Lokan Prajapati, Somri Devi W/o Gili Prajapati, Rukhiya Devi W/o Ramchandra Prajapati
				494	Private	Dhan II	0.140	566.572	Unknown
				495	Private	Dhan II	0.030	121.408	Unknown
				495	Private	Dhan II	0.030	121.408	Bandhni Devi, Piyaso Devi
				496	Private	Dhan II	0.080	323.756	Unknown
				513	Private	Dhan I	0.080	323.756	Maalo Devi W/o Jagamath karmali
				514	Private	Dhan I	0.033	134.763	Govardhan Mahto & others S/o Late Vishun Mahto, Krishna Giri & others S/o Late Khetan Giri
				514	Private	Dhan I	0.072	290.166	Unknown
				515	Private	Dhan I	0.420	1699.717	Unknown
				516	Private	Dhan I	0.160	647.511	Dilip Kishore Giri S/o Sri Badrinath Giri
				516	Private	Dhan I	0.160	647.511	Jhalmati Devi W/o Badrinath Giri
				517	Private	Dhan I	0.160	647.511	Tulsi Mahto, Jagdev Mahto, Basudeo Mahto, Ramkesar Mahto, Ramvahan Mahto S/o Late Fakir Mahto
				517	Private	Dhan I	0.160	647.511	Lalo Mahto, Bhuneswar Mahto S/o Late Dukhi Mahto
				517	Private	Dhan I	0.080	323.756	Bhuneswar Mahto S/o Late Dukhi Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				518	Private	Dhan I	0.155	627.276	Dileshwar Kushwaha, Dwarka Prasad S/o Yadu Mahto
				518	Private	Dhan I	0.130	526.103	Yadu Mahto S/o Late Jaipal Mahto
				518	Private	Dhan I	0.155	627.276	Smt. Manturiya Devi W/o Jaipal Mahto, Yadu Mahto, Mithilesh Mahto, Prakash Mahto S/o Jaipal Mahto
				519	Private	Dhan I	0.250	1011.736	Arun Kr. Mishra, Abhim Mishra S/o Shyam Panda, Jhalmati Devi W/o Badrinath Giri
				520	Private	Dhan I	0.163	660.866	Yadu Mahto S/o Late Jaipal Mahto
				520	Private	Dhan I	0.323	1308.377	Prakash Kumar Mahto, Mithilesh Mahto S/o Late Jaipal Mahto
				532	Private	Dhan I	0.180	728.450	Amar Kr. Panda S/o Late Sambhu Panda & Others
				533	Private	Dhan I	0.120	485.633	Punia Devi W/o Sarju Mahto
				533	Private	Dhan I	0.040	161.878	Unknown
				534	Private	Dhan I	0.380	1537.839	Unknown
				536	Private	Dhan I	0.006	23.594	Krishna Giri S/o Late Kheman Giri
				536	Private	Dhan I	0.020	80.939	Smt. Maalo Devi W/o Jarnath Karmali
				536	Private	Dhan I	0.073	293.403	Upasi Devi W/o Sukhdev Mahto
				536	Private	Dhan I	0.058	234.723	Govardhan Mahto & others S/o Late Vishun Mahto, Krishna Giri & others S/o Late Kheman Giri
				536	Private	Dhan I	0.018	72.845	Puran Mahto S/o Late Jhular Mahto
				537	Private	Dhan I	0.013	50.587	Bhim Mahto S/o Jhular Mahto
				537	Private	Dhan I	0.088	354.108	Unknown
				538	Private	Dhan I	0.221	895.184	Bhim Mahto S/o Jhular Mahto
				538	Private	Dhan I	0.618	2498.988	Unknown
				539	Private	Dhan I	0.120	485.633	Puran Mahto S/o Late Jhular Mahto
				540	Private	Dhan I	0.240	971.267	Upasi Devi W/o Sukhdev Mahto, Maalo Devi W/o Jagarnath Karmali, Vigu Prajapati S/o Matuk Prajapati, Astara Devi W/o Dhaneshwar Prajapati
				553	Private	Dhan I	0.080	323.756	Unknown
				554	Private	Dhan I	0.050	202.347	Ramvachan Mahto S/o Late Fakir Mahto, Govardhan Mahto S/o Late Vishun Mahto
				555	Private	Dhan I	0.230	930.797	Ramvachan Mahto S/o Late Fakir Mahto, Govardhan Mahto S/o Late Vishun Mahto
				556	Private	Dhan I	0.020	80.939	Smt. Savitri Devi W/o Gauri Shankar Karmali
				557	Private	Dhan I	0.030	121.408	Savitri Devi W/o Jitan Mahto
				558	Private	Dhan I	0.060	242.817	Unknown
				558	Private	Dhan I	0.120	485.633	Smt. Savitri Devi W/o Gauri Shankar Karmali
				558	Private	Dhan I	0.060	242.817	Jaso Devi W/o Late Doman Mahto
				559	Private	Dhan I	0.100	404.694	Smt. Savitri Devi W/o Gauri Shankar Karmali
				559	Private	Dhan I	0.080	323.756	Unknown
				560	Private	Dhan I	0.450	1821.125	Unknown
				562	Private	Dhan I	0.010	40.469	Smt. Savitri Devi W/o Gauri Shankar Karmali
				570	Private	Dhan I	0.060	242.817	Unknown
				575	Private	Dhan I	0.010	40.469	Unknown
				576	Private	Dhan I	0.310	1254.553	Unknown
				577	Private	Dhan I	0.880	3561.311	Unknown
				578	Private	Dhan I	0.190	768.919	Unknown
				598	Private	Dhan I	0.140	566.572	Unknown
				1190	Private	Dhan III	0.040	161.878	Unknown
				1193	Private	Dhan II	0.070	283.286	Unknown
				1194	Private	Dhan II	0.010	40.469	Unknown
				1192	Private	Dhan II	0.020	80.939	Unknown

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1198	Private	Dhan I	0.010	40.469	Unknown
				1199	Private	Dhan I	0.070	283.286	Unknown
				1189	Private	Dhan II	0.010	40.469	Unknown
				1200	Private	Dhan II	0.080	323.756	Unknown
				1201	Private	Dhan II	0.020	80.939	Unknown
				1202	Private	Dhan II	0.030	121.408	Unknown
				1203	Private	Dhan I	0.010	40.469	Unknown
				1204	Private	Dhan I	0.020	80.939	Unknown
				1216	Private	Dhan I	0.030	121.408	Sahdeo Mahto S/o Late Chaita
				1216	Private	Dhan I	0.030	121.408	Unknown
				1217	Private	Dhan I	0.230	930.797	Unknown
				1218	Private	Dhan I	0.060	242.817	Unknown
				1219	Private	Dhan I	0.270	1092.675	Unknown
				1220	Private	Dhan I	0.050	202.347	Unknown
				1220	Private	Dhan I	0.050	202.347	Unknown
				1221	Private	Dhan I	0.220	890.328	Unknown
				1222	Private	Dhan I	0.200	809.389	Unknown
				1223	Private	Dhan I	0.010	40.469	Unknown
				1224	Private	Dhan I	0.010	40.469	Smt. Shakuntla Devi
				1225	Private	Dhan I	0.020	80.939	Unknown
				1226	Private	Dhan I	0.030	121.408	Unknown
				1230	Private	Dhan I	0.055	222.582	Smt. Gujri Devi W/o Dhanpat Ravidas
				1230	Private	Dhan I	0.055	222.582	Unknown
				1231	Private	Dhan I	0.070	283.286	Unknown
				1231	Private	Dhan I	0.035	141.643	Unknown
				1231	Private	Dhan I	0.035	141.643	Unknown
				1232	Private	Dhan I	0.020	80.939	Unknown
				1233	Private	Dhan I	0.060	242.817	Unknown
				1235	Private	Dhan I	0.050	202.347	Unknown
				1235	Private	Dhan I	0.050	202.347	Unknown
				1236	Private	Dhan I	0.100	404.694	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1236	Private	Dhan I	0.200	809.389	Unknown
				1244	Private	Dhan I	0.130	526.103	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1244	Private	Dhan I	0.040	161.878	Unknown
				1245	Private	Dhan I	0.020	80.939	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1246	Private	Dhan I	0.110	445.164	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1247	Private	Dhan I	0.310	1254.553	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1249	Private	Dhan I	0.160	647.511	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1250	Private	Dhan I	0.180	728.450	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1251	Private	Dhan I	0.040	161.878	Unknown
				1252	Private	Dhan I	0.130	526.103	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1253	Private	Dhan I	0.060	242.817	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1254	Private	Dhan I	0.030	121.408	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1255	Private	Dhan I	0.040	161.878	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1256	Private	Dhan I	0.060	242.817	Mohan Mahto S/o Jivadhara Mahto
				1257	Private	Dhan I	0.040	161.878	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1258	Private	Dhan I	0.040	161.878	Basudeo Mahto
				1266	Private	Dhan I	0.040	161.878	Unknown
				1267	Private	Dhan I	0.100	404.694	Smt. Sangeeta Devi W/o Sri Mohan Mahto
				1626	Private	Dhan I	0.300	1214.083	Unknown
				1628	Private	Dhan I	0.318	1284.905	Mohan Mahto S/o Jivadhara Mahto
				1628	Private	Dhan I	0.130	526.103	Ram Kishun Ram, Shankar Prasad, Manoj Prajapati S/o Late Pusan Prajapati

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				1628	Private	Dhan I	0.173	698.098	Unknown
				1629	Private	Parti Kadim	0.170	687.981	Unknown
				1630	Private	Dhan I	0.160	647.511	Ram Kishun Prajapati etc S/o Late Pusan Mahto
				1632	Private	Dhan I	0.155	627.276	Ram Kishun Prajapati etc S/o Late Pusan Mahto
				1633	Private	Dhan I	0.030	121.408	Ram Kishun Prajapati etc S/o Late Pusan Mahto
				1634	Private	Dhan I	0.060	242.817	Ram Kishun Prajapati etc S/o Late Pusan Mahto
						Total	15.680	63454.189	
			(2) Murpa	598	Private	Tand II	0.10	404.694	Paras Nath Mahto, Devnarayan Mahto, Nageshwar Mahto, Chhavinath Mahto S/o Late Dhuja Mahto.
				599	Private	Tand II	0.11	445.164	Paras Nath Mahto, Devnarayan Mahto, Nageshwar Mahto, Chhavinath Mahto S/o Late Dhuja Mahto.
				600	Private	Dhan II	0.12	485.633	Paras Nath Mahto, Devnarayan Mahto, Nageshwar Mahto, Chhavinath Mahto S/o Late Dhuja Mahto.
				601	Private	Dhan Khet II	0.08	323.756	Paras Nath Mahto, Devnarayan Mahto, Nageshwar Mahto, Chhavinath Mahto S/o Late Dhuja Mahto.
				604	Private	Dhan Khet II	0.01	40.469	Paras Nath Mahto, Devnarayan Mahto, Nageshwar Mahto, Chhavinath Mahto S/o Late Dhuja Mahto.
				605	Private	Dhan Khet II	0.01	40.469	Maini Devi W/o Mahavir Pati
				607	Private	Dhan Khet II	0.54	2185.350	Jaynath Mahto, Kailash Mahto, Hemlata Mahto, Ilar Chandra Mahto S/o Late Rijhu Mahto
				608	Private	Dhan Khet III	0.16	647.511	(1) Naresh Kumar, Prakash Chandra Patel, Lal Mohan Patel S/o Rijhu Ram Mahto (2) Harilal Mahto, Brajeshwar Mahto, Babulal Mahto S/o Late Sukhlal Mahto
				612	Private	Dhan Khet II	0.22	690.328	(1) Naresh Kumar, Prakash Chandra Patel, Lal Mohan Patel S/o Rijhu Ram Mahto (2) Harilal Mahto, Brajeshwar Mahto, Babulal Mahto S/o Late Sukhlal Mahto
				613	Private	Dhan Khet II	0.14	566.572	(1) Gita Devi W/o Satish Kumar (2) Ajay Kr., Vinod Kr., S/o Late Rajeshwar Prasad Modi, Dhuja Mahto S/o Somari Mahto
				614	Private	Tand II	1.3	5261.028	(1) Jayant Kishore S/o Late Banshidhar Modi (2) Pramod Kumar, Rakesh Kumar S/o Late Suryanarayan Modi, Most. Aarti Devi W/o Ashok Kumar (3) Vinod Kumar, Ajay Kr. S/o Rajeshwar Prasad Modi (4) Kiran Kr., Manoj Kr., Sanjay Kr. S/o Late Brajeshwar Prasad Modi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				624	Private	Parti Kadim	0.32	1295.022	(1) Harilal Mahto, Brajeshwar Mahto, Babulal Mahto S/o Late Sukhlal Mahto (2) Umesh Chandra Patel S/o Sri Badhan Mahto (3) Savita Devi W/o Late Nirmala Mahto (4) Arjun Mahto S/o Sri Badhan Mahto
				625	Private	Dhan Khet II	0.18	728.450	(1) Harilal Mahto, Brajeshwar Mahto, Babulal Mahto S/o Late Sukhlal Mahto (2) Umesh Chandra Patel S/o Sri Badhan Mahto (3) Savita Devi W/o Late Nirmala Mahto (4) Arjun Mahto S/o Sri Badhan Mahto
				626	Private	Dhan Khet II	0.13	526.103	(1) Sangeeta Keshri W/o Naresh Prasad Keshri (2) Jugal Saw S/o Late Rameshwar Sao
				627	Private	Dhan Khet I	0.03	121.408	Jaynath Mahto, Kailash Mahto, Duilar Chandra Mahto S/o Late Rijhu Mahto
				635	Private	Dhan Khet I	0.05	202.347	Arjun Mahto S/o Badhan Mahto
				636	Private	Dhan Khet I	0.28	1133.144	(1) Loknath Thakur, Kauleshwar Thakur, Baleshwar Thakur S/o Chhedi Thakur (2) Sri Matilakho Devi W/o Raghunandan Thakur (3) Naresh Thakur, Sambhu Thakur & Dhaneswar Thakur
				640	Private	Dhan Khet I	0.07	283.286	Naresh Kr., Prakash Chandra Patel, Lal Mohan Patel S/o Rijhu Ram Mahto
				641	Private	Tand II	0.13	526.103	(1) Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badri Narayan Modi (2) Most. Aarti Devi W/o Late Ashok Kr. Modi, Pramod kr. Modi, Rakesh Kumar S/o Surya Narayan Modi
				642	Private	Dhan Khet I	0.37	1497.369	(1) Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badri Narayan Modi (2) Most. Aarti Devi W/o Late Ashok Kr. Modi, Pramod kr. Modi, Rakesh Kumar S/o Surya Narayan Modi
				643	Private	Dhan Khet I	0.32	1295.022	(1) Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badri Narayan Modi (2) Most. Aarti Devi W/o Late Ashok Kr. Modi, Pramod kr. Modi, Rakesh Kumar S/o Surya Narayan Modi
				653	Private	Dhan Khet III	0.09	364.225	Vinod Kr., Ajay Kr. S/o Late Rajeshwar Prasad Modi
				654	Private	Dhan Khet II	0.03	121.408	Naresh Kr., Prakash Chandra Patel, Lal Mohan Patel S/o Rijhu Ram Mahto
				655	Private	Dhan Khet II	0.1	404.694	Sambhu Lal Thakur S/o Raghunandan Thakur
				656	Private	Dhan Khet II	0.04	161.878	(2) Most. Aarti Devi W/o Late Ashok Kr. Modi, Pramod kr. Modi, Rakesh Kumar S/o Surya Narayan Modi
				657	Private	Dhan Khet III	0.03	121.408	Barhan Mahto S/o Dhani Mahto
				658	Private	Dhan Khet III	0.09	364.225	Sambhu Lal Thakur S/o Raghunandan Thakur
				659	Private	Dhan Khet III	0.2	809.389	Unknown
				679	Private	Dhan Khet III	0.01	40.469	Suresh Thakur S/o Late Rohan Lal Thakur

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				743	Private	Dhan Khet I	0.27	1092.675	Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badrinarayan Modi
				744	Private	Tand II	0.03	121.408	Mohar Mahto S/o Sukar Mahto
				752	Private	Dhan Khet I	0.01	40.469	Degan Mahto S/o Late Khetu Mahto
				786	Private	Tand III	0.02	80.939	(1) Tulsi Thakur S/o Late Laro Thakur (2) Bhikhni Devi W/o Rohan
				787	Private	Dhan Khet III	0.04	161.878	(1) Aghana Ageria, Balchandra Ageria S/o Late Bigan Ageria (2) Harihar Ageria S/o Pannu Ageria (3) Karu Ageria S/o Late Dasai Ageria (4) Most. Mundri Devi W/o Late Madhava Ageria
				790	Private	Parti Kadim	0.01	40.469	(1) Aghana Ageria, Balchandra Ageria S/o Late Bigan Ageria (2) Harihar Ageria S/o Pannu Ageria (3) Karu Ageria S/o Late Dasai Ageria (4) Most. Mundri Devi W/o Late Madhava Ageria
				791	Private	Dhan Khet II	0.21	849.858	Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badrinarayan Modi
				792	Private	Dhan Khet II	0.08	323.756	Krishnadev Narayan Agrawal S/o Late Badrinarayan Modi
				793	Private	Parti Kadim	0.35	1416.431	Amrik Singh S/o Late Sardar Sardar Singh & Others (Address : Jaiswal Colony, Behind Hotla Park Ramgarh, Main Road)
				794	Private	Dhan Khet III	0.25	1011.736	(1) Aghana Ageria, Balchandra Ageria S/o Late Bigan Ageria (2) Harihar Ageria S/o Pannu Ageria (3) Karu Ageria S/o Late Dasai Ageria (4) Most. Mundri Devi W/o Late Madhava Ageria
				795	Private	Tand II	0.23	930.797	(1) Aghana Ageria, Balchandra Ageria S/o Late Bigan Ageria (2) Harihar Ageria S/o Pannu Ageria (3) Karu Ageria S/o Late Dasai Ageria (4) Most. Mundri Devi W/o Late Madhava Ageria
				796	Private	Tand II	0.54	2185.350	(1) Ganeshi Devi W/o Late Narayan Thakur (2) Parmeshwar Thakur S/o Late Budhan Thakur (3) Raghunandan Rai S/o Late Muneshwar Hajam (4) Laakho Devi W/o Raghunandan Ram
				797	Private	Tand II	0.28	1133.144	(1) Harihar Ageria S/o Pannu Ageria (2) Phoolkumari Devi W/o Dhani Ram Ageria (3) Aghana Ageria, Bal Chandra Ageria (4) Karan Ageria S/o Dasai Ageria (5) Most. Mundri Devi W/o Madhva Ageria, Harihar Ageria
				802	Private	Tand II	0.13	526.103	(1) Bhikhni Devi W/o Rohan Lala (2) Tulsi Thakur S/o Late Laro Thakur (3) Tulsi Thakur S/o Late Laro Thakur (4) Manju Devi W/o Netlal Thakur
				803	Private	Tand II	0.02	80.939	Manju Devi W/o Netlal Thakur
				820	Private	Tand I	0.11	445.164	(1) Sukhdev Prasad Soni S/o Late Vishun Sao (2) Dhamnath Mahto, Dasrath Mahto, Dalchandra Amhto, Sevalal Mahto S/o Babulal Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				821	Private	Tand I	0.33	1335.492	(1) Vaaso Devi W/o Tapeswar Mahto (2) Jhaano Devi W/o Sahdev Mahto
				825	Private	Tand I	0.23	930.797	(1) Pachhu Mahto S/o Videshi Mahto (2) Parmeshwar Mahto, Ramdev Mahto, Rajdev Mahto S/o Mehilal Mahto (3) Ramni Devi W/o Late Bhituk Dhari Mahto
				826	Private	Tand I	0.14	566.572	(1) Shobha Devi W/o Late Jatran Mahto (2) Parmeshwar Mahto, Ramdev Mahto, Rajdev Mahto S/o Mehilal Mahto
				827	Private	Parti Kadim	0.08	323.756	(1) Shobha Devi W/o Late Jatran Mahto (2) Parmeshwar Mahto, Ramdev Mahto, Rajdev Mahto S/o Mehilal Mahto
				828	Private	Tand I	0.17	687.981	Nathu Mahto S/o Shish Tahla Mahto, Dharmnath Mahto, Dasrath Mahto, Dalchand Mahto, Sewalal Mahto S/o Babulal Mahto
				829	Private	Tand I	0.18	728.450	(1) Arun Prasad Gupta S/o Late Birju Sao (2) Shankar Prasad Gupta, Bablu Prasad Gupta S/o Birju Sao
				830	Private	Khalihan	0.03	121.408	Chhedi Thakur S/o Late Garib Thakur
				831	Private	Makan Sahan	0.07	283.286	(1) Chhedi Thakur S/o Late Garib Thakur (2) Manju Devi W/o Netlal Thakur (3) Rajesh Thakur S/o Gudhan Thakur
				833	Private	Parti Kadim	0.01	40.469	Suresh Thakur S/o Late Rohan Lal Thakur
				834	Private	Tand I	1.10	4451.639	(1) Suresh Thakur S/o Late Rohan Lal Thakur (2) Madan Gopal S/o Basdev Ram Modi (3) Ratan Prasad S/o Late Dhanu Sao (4) Rajni Devi W/o Parmeshwar Thakur, Ganeshi Devi W/o Narayan Thakur (5) Naresh Thakur, Dhaneshwar Thakur S/o Tulsi Thakur (6) Loknath Thakur, Kauleshwar Thakur, Kaleshwar Thakur S/o Chhedi Thakur (7) Reshmi Devi Shibu Thakur (8) Lakho Devi W/o Raghunandan Thakur (9) Manju Devi W/o Netlal Thakur (10) Rajesh Thakur, Rajkumar Thakur S/o Gudhan Thakur (11) Raju Devi W/o Bechan Thakur (12) Suresh Thakur S/o Late Rohan Lal Thakur (13) Bhikhni Devi W/o Late Rohan Lal Thakur (14) Chandra Thakur, Basdev Thakur S/o Late Chinta Man Thakur
				844	Private	Tand II	1.01	4087.414	(1) Mohar Mahto S/o Sukar Mahto (2) Jodhi Mahto S/o Late Lalu Mahto (3) Juman Mahto S/o Late Min Mahto (4) Shivshankar Mahto S/o Late Meghan Mahto (5) Most. Sohni Devi W/o Hem Lal Mahto
				845	Private	Tand II	0.91	3682.720	(1) Vaaso Devi W/o Tapeswar Mahto (2) Nathu Mahto S/o Shivtahal Mahto (3) Saakho devi W/o Dwarka Mahto
				846	Private	Tand II	1.02	4127.883	(1) Sukhdev Prasad Soni S/o Late Vishun Sao (2) Dharmnath Mahto, Dasrath Mahto, Dalchandra Amhto, Sevalal Mahto S/o Babulal Mahto (3) Vaaso Devi W/o Tapeswar Mahto (4) Jhaano Devi W/o Sahdev Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				847	Private	Tand II	0.19	768.919	Sukhdev Prasad Soni S/o Late Vishun Sao
						Total	13.31	53864.832	
			(3) Hatmara Pochra	152	Private	Dhan Khet I	0.28	1133.144	Bharat Mahto, Baldev Mahto S/o Lubhan Mahto, Vital Bhola, Ramchandra, Gudua Mahto S/o Degan Mahto, Ghutar Mahto, Bandhan Mahto S/o Fuchan Mahto, Khudi Mahto, Sohan, Jatal, Mana Mahto, Kisun, Santosh Mahto S/o Budhan Mahto etc.
				153	Private	Dhan Khet I	0.20	809.389	Dulal Mahto, Bhola Mahto S/o Jitan Mahto, Gajadhar Mahto, Dhanu Mahto S/o Ramju Mahto, Sahju Mahto S/o Chaman Mahto
				156	Private	Dhan Khet I	0.10	404.694	Dulal Mahto, Bhola Mahto S/o Jitan Mahto, Gajadhar Mahto, Dhanu Mahto S/o Ramju Mahto, Sahju Mahto S/o Chaman Mahto
				157	Private	Dhan III	0.18	728.450	Bharat Mahto, Baldev Mahto S/o Lubhan Mahto, Vital Bhola, Ramchandra, Gudua Mahto S/o Degan Mahto, Ghutar Mahto, Bandhan Mahto S/o Puiyan Mahto, Khudi Mahto, Sohan, Jatal, Mana Mahto, Kisun, Santosh Mahto S/o Budhan Mahto etc.
				158	Private	Dhan I	0.04	161.878	Bharat Mahto, Baldev Mahto S/o Lubhan Mahto, Vital Bhola, Ramchandra, Gudua Mahto S/o Degan Mahto, Ghutar Mahto, Bandhan Mahto S/o Puiyan Mahto, Khudi Mahto, Sohan, Jatal, Mana Mahto, Kisun, Santosh Mahto S/o Budhan Mahto etc.
				181	Private	Dhan II	1.22	4937.272	Bharat Mahto, Baldev Mahto S/o Lubhan Mahto, Vital Bhola, Ramchandra, Gudua Mahto S/o Degan Mahto, Ghutar Mahto, Bandhan Mahto S/o Puiyan Mahto, Khudi Mahto, Sohan, Jatal, Mana Mahto, Kisun, Santosh Mahto S/o Budhan Mahto etc.
				182	Private	Tand II	0.07	283.286	Dhakhul Mahto, Chando Mahto S/o Late Sona Mahto, Kheta Mahto, Jagdish Mahto, Tejnarayan Mahto, Bhola Mahto S/o Nakul Mahto
				183	Private	Tand II	0.50	2023.472	Mohan Yadav, Suresh Yadav, Naresh Yadav S/o Kaasi Yadav
				183	Private	Tand II	0.28	1133.144	Moti Yadav S/o Kaasi Yadav
				189	Private	Tand II	0.70	2832.861	Mallal Mahto, Mohan Mahto, Naresh Mahto, Suresh Mahto S/o Koshi Mahto
				200	Private	Dhan III	0.01	40.469	Manua Gope S/o Tharan Mahto, Doman Gope S/o Bukan Mahto
				201	Private	Dhan I	0.20	809.389	Manua Gope S/o Tharan Mahto, Doman Gope S/o Bukan Mahto
				202	Private	Dhan II	0.17	687.981	Manua Gope S/o Tharan Mahto, Doman Gope S/o Bukan Mahto
				203	Private	Dhan II	0.19	768.919	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto, Jagarnath Mahto, Hemlal Mahto, Devnarayan Mahto Paseran Khudi Mahto, Jodhan Mahto, Shiva Mahto Paseran Gango Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				204	Private	Dhan I	0.47	1902.064	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto, Jagamath Mahto, Hemlal Mahto, Devnarayan Mahto Paseran Khudi Mahto, Jodhan Mahto, Shiva Mahto Paseran Gango Mahto
				205	Private	Dhan II	0.06	242.817	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto, Jagamath Mahto, Hemlal Mahto, Devnarayan Mahto Paseran Khudi Mahto, Jodhan Mahto, Shiva Mahto Paseran Gango Mahto
				205	Private	Dhan II	0.0075	30.352	Jagamath Mahto, Jhumlal Mahto, Devnarayan Mahto S/o Khudi Mahto
				205	Private	Dhan II	0.0125	50.587	Unknown
				206	Private	Tand III	0.05	202.347	Sri Kamal Yadav S/o Chinu Yadav
				257	Private	Tand III	0.27	1092.675	Maso. Panva Devi W/o Late Kashi Yadav, Deva Yadav S/o Late Dhani Mahto
				258	Private	Tand III	0.14	566.572	Basudeo Yadav, Seetan Yadav S/o Shyam Lal Yadav, Bhuneshwar Yadav S/o Yetlal Yadav, Maso. Kumri Devi W/o Kauleshwar Yadav
				259	Private	Tand III	0.11	445.164	Hulas Mahto S/o Sodhan Mahto
				260	Private	Tand III	0.12	485.633	Bhadua Mahto S/o Sodhan Mahto
				261	Private	Tand III	0.21	849.858	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				262	Private	Tand III	0.33	1335.492	Smt. Muniya Devi, W/o Mathura Gope
				263	Private	Tand III	0.28	1133.144	Chinu Mahto S/o Dhani Mahto
				264	Private	Tand III	0.11	445.164	Chinu Mahto S/o Dhani Mahto
				265	Private	Tand III	0.08	323.756	Chinu Mahto S/o Dhani Mahto
				266	Private	Tand III	0.14	566.572	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				267	Private	Tand III	0.23	930.797	Maso. Pano Devi W/o Late Kaasi Yadav, Babu Lal, Deva, Chinu Yadav, Raghunandan Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Mahto, Hulas Mahto S/o Rupu Mahto & Others
				268	Private	Tand III	0.17	687.981	Smt. Muniya Devi, W/o Mathura Gope
				679	Private	Dhan II	0.01	40.469	Bilu S/o Kisun Mahto, Dukhan S/o Raghunath Mahto
				680	Private	Parti Kadim	0.02	80.939	Kamal Yadav, Gopal, Moti S/o Thuran Yadav & Others
				681	Private	Dhan III	0.01	40.469	Kamal Yadav, Gopal, Moti S/o Thuran Yadav & Others
				686	Private	Dhan III	0.22	890.328	Kamal Yadav, Gopal, Moti S/o Thuran Yadav & Others
				682	Private	Dhan III	0.01	40.469	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto
				683	Private	Dhan I	0.07	283.286	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto
				684	Private	Dhan I	0.07	283.286	Unknown
				685	Private	Dhan I	0.08	323.756	Viran Mahto S/o Sanjit Mahto
				687	Private	Dhan II	0.04	161.878	Khudi Mahto S/o Rupu Mahto
				715	Private	Tand II	0.06	242.817	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				740	Private	Tand II	0.05	202.347	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				741	Private	Tand II	0.05	202.347	Unknown
				742	Private	Tand II	0.16	647.511	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav

4579 40/10 - 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				743	Private	Tand II	0.14	566.572	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				747	Private	Tand II	0.2160	874.140	Moti Yadav S/o Kaasi Yadav
				747	Private	Tand II	0.0920	372.319	Teklal Yadav S/o Kashi Mahto
				747	Private	Tand II	0.1120	453.258	Mohan Yadav, Suresh Yadav, Naresh Yadav S/o Kaasi Yadav
				748	Private	Tand II	0.1420	574.666	Mattal Mahto S/o Kashi Mahto
				748	Private	Tand II	0.1420	574.666	Mohan Yadav, Suresh Yadav, Naresh Yadav S/o Kaasi Yadav
				748	Private	Tand II	0.0920	372.319	Teklal Yadav S/o Kashi Mahto
				748	Private	Tand II	0.1440	582.760	Moti Yadav S/o Kaasi Yadav
				749	Private	Tand III	0.08	323.756	Chinu Yadav S/o Late Dhani Yadav
				750	Private	Tand III	0.0875	354.108	Rupesh Yadav S/o Basudeo Yadav
				750	Private	Tand III	0.2325	940.915	Maso. Kumri Devi W/o Late Kauleshwar Yadav, Basdev Yadav, Sitan Yadav S/o Late Shyam Lal Yadav
				751	Private	Tand III	0.55	2225.820	Hardayal Mahto S/o Phoyal Ram Mahto
				814	Private	Tand III	0.14	566.572	Maso. Sukri Devi W/o Late Vipat Gope
				830	Private	Dhan II	0.04	161.878	Chetlal Gope, Kauleshar Gope S/o Khedan Mahto
				831	Private	Dhan II	0.20	809.389	Yadav Mahto, Dhaneesar Mahto, Ram Prasad Mahto S/o Babulal Mahto, Ramesar Mahto, Bhunesar Mahto, Mahavir Mahto, Laldev Mahto, Sukhdev Prasad S/o Kailu Mahto
				835	Private	Dhan II	0.02	80.939	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				836	Private	Dhan II	0.2850	1153.379	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				836	Private	Dhan II	0.0950	384.460	Bharat Mahto, Baldev Mahto S/o Lubhan Mahto, Vital Bhola, Ramchandra, Gudua Mahto S/o Degan Mahto, etc.
				838	Private	Dhan II	0.04	161.878	Unknown
				839	Private	Dhan II	0.02	80.939	Viran Mahto S/o Sanjit Mahto
				840	Private	Dhan II	0.03	121.408	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav, Mathura Yadav S/o Dhani Yadav
				841	Private	Dhan II	0.01	40.469	Viran Mahto S/o Sanjit Mahto
				842	Private	Dhan II	0.31	1254.553	Raghunandan Yadav S/o Dhani Yadav
				843	Private	Dhan I	0.20	809.389	Khudi Mahto Wald Rupu Mahto
				844	Private	Dhan I	0.04	161.878	Khudi Mahto Wald Rupu Mahto
				844	Private	Dhan I	0.19	768.919	Unknown
				845	Private	Dhan I	0.01	40.469	Khudi Mahto Wald Rupu Mahto
				929	Private	Dhan II	0.12	485.633	The Indian Educational Foundation Dweza Secretary Sri Pramod Kr., Sri Krishnakant Sharma Residence - New Nagar, Dipatoli, Ranchi
						Total	11.56	46782.679	
			(4) Paiki	38	Private	Dhan II	0.06	242.82	Most. Dubhni Devi W/o Late Rijhu Munda, Arjun Munda S/o Hona Munda, Suresh Munda S/o Jhota Munda
				39	Private	Dhan II	0.11	445.17	Most. Dubhni Devi W/o Late Rijhu Munda, Arjun Munda S/o Hona Munda, Suresh Munda S/o Jhota Munda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				40	Private	Dhan II	0.03	121.41	Most. Dubhni Devi W/o Late Rijhu Munda, Arjun Munda S/o Hona Munda, Suresh Munda S/o Jhota Munda
				41	Private	Dhan II	0.04	161.88	Most. Dubhni Devi W/o Late Rijhu Munda, Arjun Munda S/o Hona Munda, Suresh Munda S/o Jhota Munda
				44	Private	Tand II	0.01	40.47	Most. Dubhni Devi W/o Late Rijhu Munda, Arjun Munda S/o Hona Munda, Suresh Munda S/o Jhota Munda
				238	Khatiyar Destroyed	Dhan II	0.01	40.47	Shankar Munda, Manoj Munda S/o Bedhu Munda, Suresh, Naresh, Doman Munda S/o Dhruja Munda, Mangra Munda S/o Ruplal Munda, Veeru Munda S/o Chaita Munda, Santosh Munda S/o Prabhu Munda
				249	Private	Dhan I	0.07	283.29	Balku Munda S/o Kartik Munda, Most. Kaili Devi W/o Somra Munda, Chaman, Mohan, Teklal S/o Lalmoni Munda, Most. Pancmi Devi W/o Rameshwar Munda, Dhaneswar, Jageshwar Munda S/o Mainika Munda
				250	Private	Tand II	0.01	40.47	Balku Munda S/o Kartik Munda, Most. Kaili Devi W/o Somra Munda, Chaman, Mohan, Teklal S/o Lalmoni Munda, Most. Pancmi Devi W/o Rameshwar Munda, Dhaneswar, Jageshwar Munda S/o Mainika Munda
				276	Khatiyar Destroyed	Tand II	0.04	161.88	Unknown
							0.38	1537.86	
		2-Ramgarh	(1) Muramkalan	693	Private	Dhan I	0.02	80.94	Devdhar Mahto & others S/o Kamal Mahto, Kancho Devi W/o Mohan Mahto, Jhubri Devi W/o Kamal Mahto, Minu Mahto S/o Nema Mahto, Jeevlal Mahto & Others S/o Sukar Mahto
				694	Private	Tand II	0.01	40.47	Devdhar Mahto & others S/o Kamal Mahto, Kancho Devi W/o Mohan Mahto, Jhubri Devi W/o Kamal Mahto, Minu Mahto, Jeevlal Mahto & Others S/o Sukar Mahto
				1053	Private	Tand II	0.35	1416.45	Devdhar Mahto & others S/o Kamal Mahto, Kancho Devi W/o Mohan Mahto, Jhubri Devi W/o Kamal Mahto, Minu Mahto, Jeevlal Mahto & Others S/o Sukar Mahto
				1181	Private	Dhan II	0.42	1699.74	Devdhar Mahto & others S/o Kamal Mahto, Kancho Devi W/o Mohan Mahto, Jhubri Devi W/o Kamal Mahto, Minu Mahto, Jeevlal Mahto & Others S/o Sukar Mahto
				1182	Private	Tand III	0.34	1375.98	Devdhar Mahto & others S/o Kamal Mahto, Kancho Devi W/o Mohan Mahto, Jhubri Devi W/o Kamal Mahto, Minu Mahto, Jeevlal Mahto & Others S/o Sukar Mahto
				699	Private	Tand III	0.20	809.4	Phulsari Devi W/o Sukhran Mahto
				700	Private	Tand II	0.98	3966.06	Smt. Anjali Devi W/o Ramnarayan Choudhary, Hukum Nath Mahto, Jaleshwar Mahto, Hemant Kr., Bhimeshwar Mahto, Gurucharan Mahto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				702	Private	Tand II	0.64	2590.08	Sahdeo Mahto, Sarlu Mahto, Sahju Mahto, Madhu Mahto, Naresh Mahto
				703	Private	Tand III	0.08	323.76	Mahru Mahto, Tulu Mahto, Nirmal Mahto, Sapan Mahto S/o Lakhu Mahto
				710	Private	Tand III	0.19	768.93	Mahru Mahto, Tulu Mahto, Nirmal Mahto, Sapan Mahto S/o Lakhu Mahto
				713	Private	Dhan Raiyat II	0.80	3237.6	Mahru Mahto, Tulu Mahto, Nirmal Mahto, Sapan Mahto S/o Lakhu Mahto
				714	Private	Dhan Rayat III	0.10	404.7	Mahru Mahto, Tulu Mahto, Nirmal Mahto, Sapan Mahto S/o Lakhu Mahto
				704	Private	Tand III	0.45	1821.15	Mo. Budu W/o Late Nirmal Mahto, Meghnath Mahto S/o Laldev Mahto, Devial Mahto S/o Dhuja Mahto, Lalu Mahto, Balu Mahto S/o Lovin Mahto
				711	Private	Tand III	0.10	404.7	Mo. Budu W/o Late Nirmal Mahto, Meghnath Mahto S/o Laldev Mahto, Devial Mahto S/o Dhuja Mahto, Lalu Mahto, Balu Mahto S/o Lovin Mahto
				709	Private	Tand III	0.40	1618.8	Bodhan Mahto, Sarju Mahto, Kaila Mahto, Rewalal Mahto, Tuman Mahto, Narayan Mahto, Raku Mahto, Baijnath Mahto, Meena Mahto, Churni Lal Mahto, Kisun Mahto, Charku Mahto, Ghanaram Mahto
				716	Private	Tand II	0.29	1173.63	Chohan Mahto S/o Chunnilal Mahto
				1054	Private	Tand III	0.42	1699.74	Panchit Mahto, Indrapal Mahto, Moglal Mahto, Raawan Mahto, Lochan Mahto, Vijal Mahto, Nirmal Mahto, Bhola Mahto, Tikaram Mahto, Lachhu Mahto, Vidhi Mahto, Naago Mahto, Vahali Mahto, Dilip Mahto, Devki Mahto & Others
				1179	Private	Dhan I	0.24	971.28	Panchit Mahto, Indrapal Mahto, Moglal Mahto, Raawan Mahto, Lochan Mahto, Vijal Mahto, Nirmal Mahto, Bhola Mahto, Tikaram Mahto, Lachhu Mahto, Vidhi Mahto, Naago Mahto, Vahali Mahto, Dilip Mahto, Devki Mahto & Others
				1180	Private	Tand II	0.43	1740.21	Panchit Mahto, Indrapal Mahto, Moglal Mahto, Raawan Mahto, Lochan Mahto, Vijal Mahto, Nirmal Mahto, Bhola Mahto, Tikaram Mahto, Lachhu Mahto, Vidhi Mahto, Naago Mahto, Vahali Mahto, Dilip Mahto, Devki Mahto & Others
						TOTAL	6.46	26143.62	
			(2) Kankebar	523	Private	Tand II	0.33	1335.51	Shri Vishnu Poddar S/o Ram Gopal Poddar, Savita Poddar W/o Sri Vishnu Poddar, Sanjay Poddar S/o Chittamal Poddar, Sri Abhishek Rungta S/o Sri Ramchandra Rungta
				525	Private	Tand II	0.35	1416.45	Green Valley Griha Nirman Sahkari Sahmati Ltd., Smt. Savita Devi W/o Sri Vishnu Poddar
				526	Private	Tand II	0.44	1780.68	Green Valley Griha Nirman Sahkari Sahmati Ltd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				528	Private	Tand II	0.39	1578.33	Rakesh Kr., Rajesh Kr., S/o Late Mahendra Prasad., Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				529	Private	Tand II	0.17	687.99	Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				530	Private	Tand II	0.01	40.47	Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				531	Private	Tand II	0.14	566.58	Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				532	Private	Tand II	0.01	40.47	Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				537	Private	Tand II	0.25	1011.75	Ruplal Mahto, Khusilal Mahto S/o Late Kisun Mahto, Mo. Fudni W/o Late Rajeshwar Mahto
				533	Private	Tand I	0.22	890.34	Smt. Veena Devi W/o Sri Yogendra Mishri, Mahesh Maanwah
				534	Private	Makaan	0.05	202.35	Masjid, Jamaluddin Ansari S/o Late Sheikh Abdul
				535	Private	Tand I	0.20	809.4	Masjid, Jamaluddin Ansari S/o Late Sheikh Abdul
				536	Private	Tand I	0.15	607.05	Madhya Vidyalaya Kankebar, Hemlal Mahto, Surendra Mahto S/o Late Darbari Mahto, Meghnath Mahto S/o Late Palu Mahto
				547	Private	Tand I Gharwari	0.13	526.11	Chintamani Mahto, Sitaram Mahto, Jhalak Dev Mahto S/o Late Bihari Mahto
				565	Private	Khatyan Destroyed	0.16	647.52	Unknown
				566	Private	Khatyan Destroyed	0.04	161.88	Unknown
				567	Private	Khatyan Destroyed	0.44	1780.68	Unknown
				598	Private	Khatyan Destroyed	0.42	1699.74	Unknown
				599	Private	Khatyan Destroyed	0.4	1618.8	Unknown
				601	Private	Khatyan Destroyed	0.16	647.52	Unknown
				603	Private	Parti Kadim	0.01	40.47	Unknown
				606	Private	Dhan III	0.46	1942.56	Merry P. V. Asai Bhawan
							4.95	20032.65	

[F. No. NHA/11013/01/LA(AM)/2010/Jhar/6-VIII.]

S. S. GULIA, Director